

टेबल 11.4 : बैंक समूह-वार और व्यवसाय-वार भारत औसत उधार दर (वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट) और जमाराशि संबंधी दर- 2006 और 2007

(प्रतिशत)

व्यवसाय	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी		राष्ट्रीयकृत बैंक		विदेशी बैंक	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भारत औसत उधार संबंधी दर						
I. कृषि	11.34	11.50	11.76	11.64	14.77	13.50
1. प्रत्यक्ष वित्त	10.99	11.57	11.20	11.19	15.92	14.19
2. अप्रत्यक्ष वित्त	11.97	11.31	12.17	12.05	14.36	11.81
II. उद्योग	11.96	12.10	12.65	12.43	14.05	12.77
1. खनन और उत्खनन (माइनिंग एंड क्रॉरिंग)	11.91	12.45	12.48	11.79	14.67	11.94
2. उत्पादन और संसाधन	11.96	12.09	12.65	12.41	13.96	12.81
3. बिजली, गैस और पानी	12.45	12.02	12.91	12.59	14.82	12.62
4. निर्माण	11.81	12.06	12.45	12.53	14.78	12.43
III. परिवहन परिचालक	13.06	12.22	12.38	12.78	14.25	13.27
IV. व्यवसायिक (प्रोफेशनल) और अन्य सेवाएं	11.94	11.76	12.24	12.18	13.28	12.76
V. वैयक्तिक ऋण	10.21	10.48	9.80	10.38	12.04	13.47
1. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	15.74	14.14	14.43	13.89	15.02	15.75
2. आवास के लिए ऋण	8.49	8.92	8.54	9.24	9.22	9.75
3. शेष वैयक्तिक ऋण	13.84	13.61	13.39	13.38	17.50	17.56
VI. व्यापार	10.72	10.82	11.00	11.34	14.64	13.12
1. थोक व्यापार	10.00	10.16	10.35	10.65	14.47	12.74
2. खुदरा व्यापार	11.74	11.90	12.02	12.27	14.79	13.22
VII. वित्त	13.24	12.99	12.51	12.26	14.82	13.23
VIII. सभी अन्य	11.49	11.67	11.71	11.74	13.92	13.80
कुल बैंक ऋण	11.49	11.64	11.89	11.89	13.43	13.03
जिसमें से :						
1. कारीगर और ग्रामीण उद्योग	10.97	11.91	11.87	12.28	15.47	14.98
2. अन्य लघु उद्योग	11.21	12.00	11.69	12.12	13.34	12.22
सावधि जमाराशियों का भारत औसत जमाराशि दर	6.22	7.74	6.42	8.02	5.75	9.03

टिप्पणियां : 1. उधार संबंधी ब्याज दर उन खातों पर आधारित है जिनकी ऋण सीमा रुपये 2 लाख से ज्यादा है ।
2. खरीदे और भुनाए गए अंतर्देशीय व विदेशी बिल उधार संबंधी ब्याज दर में शामिल नहीं हैं ।
3. बकाया ऋण की राशि को औसत उधार ब्याज दर के हिसाब के लिए भार (वेट्स) के रूप में रखा गया है ।
4. जमाराशियों के आंकड़े केवल सावधि जमाराशियों से संपर्कित है ।
5. वर्ष 2007 के औसत जमाराशि दर के आंकड़े, कुल 70408 शाखाओं में से 61106 रिपोर्टकर्ता शाखाओं पर आधारित हैं और सावधि जमाराशियों से संबंधित हैं ।
6. ब्याज दर सीमा के मध्य बिंदू को मूल्य (वैल्यू) के रूप में, और उस रेंज में कुल जमाराशि को भार (वेट्स) के रूप में लिए गए थे ।

स्त्रोत : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी । और II, सांख्यिकीय विश्लेषण और सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ।

टेबल 11.4 : बैंक समूह-वार और व्यवसाय-वार भारत औसत उधार दर (वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट) और जमाराशि संबंधी दर- 2006 और 2007 (समाप्त)

(प्रतिशत)

व्यवसाय	क्षेत्रीय ग्रामी बैंक		अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
भारत औसत उधार संबंधी दर						
I. कृषि	12.49	11.71	11.75	12.01	11.70	11.72
1. प्रत्यक्ष वित्त	12.59	11.70	11.99	12.31	11.33	11.60
2. अप्रत्यक्ष वित्त	11.98	11.87	11.24	11.56	12.10	11.88
II. उद्योग	12.07	11.70	12.72	12.37	12.58	12.36
1. खनन और उत्खनन (माइनिंग एंड क्रॉसिंग)	12.67	12.84	12.45	12.98	12.39	12.18
2. उत्पादन और संसाधन	12.63	12.01	12.77	12.33	12.59	12.33
3. बिजली, गैस और पानी	13.63	12.61	13.29	13.57	12.89	12.64
4. निर्माण	11.45	11.25	12.41	11.90	12.39	12.33
III. परिवहन परिचालक	12.82	12.44	12.51	12.18	12.69	12.49
IV. व्यवसायिक (प्रोफेशनल) और अन्य सेवाएं	12.17	12.08	12.42	12.51	12.36	12.26
V. वैयक्तिक ऋण	11.36	11.36	11.42	11.05	10.66	10.87
1. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	15.30	13.86	15.01	14.24	15.03	14.36
2. आवास के लिए ऋण	10.16	10.23	8.55	8.68	8.61	9.01
3. शेष वैयक्तिक ऋण	13.96	13.44	15.04	14.95	14.60	14.47
VI. व्यापार	12.60	12.00	12.21	12.18	11.23	11.54
1. थोक व्यापार	12.75	12.51	11.67	11.92	10.49	10.77
2. खुदरा व्यापार	12.55	11.85	12.53	12.36	12.17	12.37
VII. वित्त	11.06	11.16	13.32	12.92	12.95	12.56
VIII. सभी अन्य	12.71	11.63	11.80	12.03	11.80	11.87
कुल बैंक ऋण	12.19	11.70	12.19	11.91	11.97	11.92
जिसमें से :						
1. कारीगर और ग्रामीण उद्योग	12.81	12.64	12.33	14.15	11.41	12.47
2. अन्य लघु उद्योग	12.72	11.74	12.22	12.76	11.64	12.15
सावधि जमाराशियों का भारत औसत जमाराशि दर	7.11	7.51	7.07	8.98	6.51	8.22

टिप्पणियां : 1. उधार संबंधी ब्याज दर उन खातों पर आधारित है जिनकी ऋण सीमा रुपये 2 लाख से ज्यादा है ।
2. खरीदे और भुनाए गए अंतर्देशीय व विदेशी बिल उधार संबंधी ब्याज दर में शामिल नहीं हैं ।
3. बकाया ऋण की राशि को औसत उधार ब्याज दर के हिसाब के लिए भार (वेट्स) के रूप में रखा गया है ।
4. जमाराशियों के आंकड़े केवल सावधि जमाराशियों से संपर्कित है ।
5. वर्ष 2007 के औसत जमाराशि दर के आंकड़े, कुल 70408 शाखाओं में से 61106 रिपोर्टकर्ता शाखाओं पर आधारित हैं और सावधि जमाराशियों से संबंधित हैं ।
6. ब्याज दर सीमा के मध्य बिंदु को मूल्य (वैल्यू) के रूप में, और उस रेंज में कुल जमाराशि को भार (वेट्स) के रूप में लिए गए थे ।

स्रोत : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी । और II, सांख्यिकीय विश्लेषण और सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ।